

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

नई दिल्ली-110025

19 जुलाई 2021

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया के प्रोफेसर का अनुसंधान के प्रतिष्ठित विज़िटर'स अवार्ड 2020 के लिए चयन

यह जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रोफेसर मो. जाहिद अशरफ, अध्यक्ष, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, को उनके अग्रणी शोध 'रिज़ॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ऑन एक्सपोजर टू हाइपोक्सिया एट हाइ एलटिट्यूड्स' के लिए माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित विज़िटर'स अवार्ड 2020 से राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

प्रो. अशरफ को जैविक विज्ञान श्रेणी के तहत यह पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके कार्य ने हाइ एलटिट्यूड्स पर अत्यंत चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों में थ्रॉम्बोसिस के शीघ्र निदान और उपचार के लिए रणनीति विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रो. नजमा अख्तर, कुलपति, जामिया ने इस सम्मान के लिए प्रो. अशरफ को बधाई दी और उल्लेख किया कि यह विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है और प्रो. अशरफ की यह उपलब्धि अन्य संकाय सदस्यों को शिक्षा के साथ-साथ अनुसंधान में उत्कृष्टता की खोज के लिए प्रेरित करेगी।

कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान को बढ़ाने और एसटीईएम को बढ़ावा देने के भारत सरकार के मिशन के लिए प्रतिबद्ध है।

हाइपोक्सिया के क्षेत्र में प्रो. अशरफ के अपार योगदान और हृदय रोगों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह शिफरिश की गई है।

प्रो. अशरफ राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद और भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलोर के निर्वाचित फेलो हैं। वे प्रतिष्ठित गुहा अनुसंधान परिषद के सदस्य हैं।

प्रो. अशरफ, हाइ आल्टिट्यूड रिलेटेड थ्रॉम्बोसिस इन द इंडियन पॉप्युलेशन पर अपने मौलिक कार्य के लिए आईसीएमआर के बसंती देवी अमीर चंद और डीबीटी के राष्ट्रीय जैव विज्ञान पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। उनके शोध के परिणाम ने पहाड़ों, खेल, तीर्थयात्रा और शत्रुतापूर्ण वातावरण में सैनिकों के काम करने पर रक्त के थक्के बनने की हमारी समझ को अंतर्दृष्टि प्रदान की है।

गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब जामिया के किसी प्रोफेसर को विजिटर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। इससे पहले 2015 में, सेंटर फॉर थ्योरीटिकल फिजिक्स, जेएमआई के प्रो. एम. सामी की अध्यक्षता में कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च ग्रुप को एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी में कंटेम्परेरी इश्यूज के क्षेत्र में किए गए पथ-प्रदर्शक शोध के लिए विज़िटर अवार्ड भी मिला था।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

